

August 8, 2023

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400001

Scrip Code: 533320 Symbol: JUBLINDS

Sub: Unaudited Financial Results - Newspaper Publications

Exchange Plaza

Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai - 400051

National Stock Exchange of India Limited

Dear Sirs.

Further to our letter dated August 7, 2023, regarding approval of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2023, please find enclosed newspaper advertisements published, in compliance with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in MINT (English) and HINDUSTAN (Hindi) on August 8, 2023.

This is for information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For Jubilant Industries Limited

Brijesh Kumar Company Secretary & Compliance Officer

A Jubilant Bhartia Company



Plot No. 15, Knowledge Park II, Greater Noida, Distt. Gautam Budh Nagar - 201 306, UP, India Tel: +91 120 7186000 Fax: +91 120 7186140 www.jubilantindustries.com

Regd Office: Bhartiagram, Gajraula Distt. Amroha-244 223 UP, India CIN: L24100UP2007PLC032909





Vaibhav Taneja named Tesla CFO as Kirkhorn exits after 13 years

Tesla Inc. said chief financial officer Zachary Kirkhorn stepped down after 13 years at the company, a surprise shakeup for the electric-vehicle giant. Chief accounting officer Vaibhav Taneja took on the CFO role in addition to his current duties as of 4 August, Tesla said Monday in a regulatory filing. Kirkhorn, who has been the finance chief for the past four years, will continue to serve the company through the end of the year "to support a seamless transition".

UBS plans to cut two-thirds of Credit Suisse bankers in Asia



UBS Group AG is weighing a plan to cut about two-thirds of Credit Suisse Group's investment bankers in Asia-Pacific as part of the first major job reductions in the region following the merger of the two Swiss lenders, people familiar with the matter said. That would cost about 200 jobs at its global banking division in Asia over the next couple of months, the people said, asking not to be identified because the matter is confidential.

Pak PM set to dissolve parliament this week as Imran Khan is jailed

Pakistan prime minister Shehbaz Sharif is set to dissolve parliament days before his term expires at the end of the week, a development that comes shortly after popular former leader Imran Khan was imprisoned in a graft case. "I will dissolve my government and the National Assembly on August 9," Sharif told a rally in Punjab province on Sunday. "The rest is in the hands of Allah the almighty. After that an interim government will take over and elections will be held."

China foreign investment gauge at 25-year low amid high tensions

One measure of new foreign investment in China fell to the lowest in 25 years in Q2, fuelling concerns about how much geopolitical tensions and the economy's slowing recovery can hurt business confidence. Direct investment liabilities—a gauge of FDI in China—slumped to just \$4.9 billion April-June, as per State Administration of Foreign Exchange figures released on Friday. That was down 87% year-on-year.

Boeing targets space flight by March next

GLOBAL

The target hinges on the success of drop tests of its parachute upgrades

Bloomberg

feedback@livemint.com

oeing Co. aims to have its Starliner capsule ready for its first flight to the International Space Station (ISS) with astronauts on board around next March, with a long-delayed launch following Nasa

Boeing's target hinges on a successful high-altitude drop test of parachute upgrades, currently slated for around November, a company spokesperson told *Bloomberg News*, as well as satisfying other crucial technical and safety concerns both internally and at Nasa.

Starliner's future has been uncertain, with Nasa and Boeing officials in June delaying its launch indefinitely. Repeated delays have heaped pressure on Boeing, with a fresh \$257 million accounting charge unveiled on 26 July bringing its total cost overruns to more than \$1.4 billion.

Boeing and Nasa were scheduled to provide an update on Starliner's crewed flight test at 2 pm ET on Monday.

The delays have also raised concerns about Nasa's goal of having multiple lifelines to the International Space Station. SpaceX's Crew Dragon spacecraft successfully flewits first astronauts under the Commercial Crew Program to the ISS in 2020, and has sent crews to the space station several times since. SpaceX's next mission to ISS is slated for 25 August.

A successful crewed test-flight would ultimately clear the way for Starliner to ferry cargo and astronauts to the ISS, but flight readiness does not necessarily mean a launch date will be available.

Boeing aims to be ready to launch late in the first quarter of next year, and will be working with Nasa to identify a target date, the spokesperson said. A Nasa representative declined to comment ahead of Monday's news conference.

During its June press conference, Nasa and Boeing said they had discovered two



Starliner's future has been uncertain, with Nasa and Boeing officials in June delaying its launch indefinitely. Repeated delays have heaped pressure on Boeing.

crewed test-flight

would clear the

way for Starliner

to ferry cargo and

astronauts to

the ISS

new concerns with Starliner, including issues with the vehicle's parachutes and flammable tape used to wrap around wiring harnesses.

The high-altitude drop of the capsule in November will test parachute upgrades

engineers believe resolve potential safety risks flagged earlier, Boeing said. Upgrades include a modified fabric joint with an improved safety margin and higherstrength fibres, the company said.

Boeing is trying to resolve the flammability issue by eliminating the acrylic tape

in some areas of Starliner, or covering it up elsewhere. That could mitigate fire risks as the tape's glue, which is flammable, needs oxygen to ignite.

For Starliner's launch to happen, Boeing's work would have to be completed and approved in parallel with the many

other standard but elaborate preparations emblematic of space travel, any of which could throw off the timeline, aerospace experts say.

The Starliner upgrades come as Boe-

grades ing's defence and space division struggles with worker turnover, parts shortages and inflation, par-

shortages and inflation, particularly on fixed-price contracts that it won last decade with bids that were near break-even. Starliner's repeated delays

and cost overruns have raised questions over whether Boeing might scrap the program all-together—a prospect executives have repeatedly rejected.

"We prioritize safety, and we're taking whatever time is required," Boeing chief executive officer Dave Calhoun told analysts on a 26 July earnings call. "We're confident in that team and committed to getting it right."

Russia's first Moon lander since 1976 in race with India

Reuters feedback@livemint.com

Russia will launch its first lunar landing spacecraft in 47 years on Friday in a race with India to the south pole of the Moon, a potential source of water to support a future human presence there.

The launch from the Vostochny cosmodrome, 3,450 miles (5,550 km) east of Moscow, will take place four weeks after India sent up its Chandrayaan-3 lunar lander, due to touch down at the pole on 23 August.

Rough terrain makes a landing there difficult, but the south pole is a prized destination because scientists believe it may hold significant quantities of ice that could be used to extract fuel and oxygen, as well as for drinking water.

Russian space agency Roscosmos said in reply to questions from *Reuters* that its Luna-25 spacecraft would take five days to fly to the Moon and then spend five to

seven days in lunar orbit before descending on one of three possible landing sites near the pole—a timetable that implies it could match or nar-

rowly beat its Indian rival to the Moon's sur-

Roscosmos said the two missions would not get in each other's way because they have different landing areas planned. "There is no danger that they interfere with each other or collide. There is enough space for everyone on the moon," it said.

Chandrayaan-3 is due to run experiments for two weeks, while Luna-25 will work on



Scientists work on the Luna-25 lunar craft at Vostochny Cosmodrome.

the moon for a year.

With a mass of 1.8 tonnes and carrying 31 kg (68 pounds) of scientific equipment, Luna-25 will use a scoop to take rock samples from a depth of up to 15 cm (6 inches) to test for the presence of frozen water that could support human life.

"The Moon is the seventh continent of the Earth so we are simply 'condemned', as it were, to tame it," said Lev Zel-

Roscosmos said
Luna-25 mission
won't clash with
Chandrayaan-3 as
they have

ber 2021, has been delayed for nearly two years.
The European Space Agency had planned to test its Pilot-D navigation camera by attaching it to Luna-25,

but broke off its ties to the

planned for Octo-

project after Russia invaded Ukraine in February last year. Residents of a village in Russia's far east will be evacuated from their homes at 7.30 am on Friday because of a "one in a million chance" that one of the rocket stages that launches Luna-25 could fall to earth

there, a local official said.



Jubilant Industries Limited

Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, Distt. Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24100UP2007PLC032909 Website: www.jubilantindustries.com | E-mail: investorsjil@jubl.com | Ph.: +91-5924-267437

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2023

(₹ in Lakh

22 March 31,2023) (Audited) 03 147,292 69 7220 69 7220 70 5279
03 147,292 69 7220 69 7220
7220 69 7220
69 7220
70 5279
935
6214
6186
1,507
18,829
43 35.06
29 34.72
6.20
22 6.14
65 41.26
51 40.86
2 2 2 2

Notes:

Place: Gurugram
Date: 07th August, 2023

 The Standalone Financial Results are available under Investors section of our website at www.jubilantindustries.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key Standalone Financial information of the Company is as under:
 (₹ in Lakhs)

SI No.	Particulars		Year ended		
		June 30, 2023	March 31, 2023	June 30, 2022	March 31, 2023
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Revenue from operations	-	-	-	-
2.	Profit/(Loss) for the period before tax from continuing operations	-	-	-	-
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations	-	-	-	-
4.	Net Profit/(Loss) for the period from discontinued operations	(32)	904	33	935
5.	Net Profit/(Loss) for the period from continuing operations and discontinued operations	(32)	904	33	935

- 2. The above unaudited financial results were, subjected to limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved and taken on records by the Board of Directors at its meeting held on 07th August, 2023.
- 3. The above is an extract of the detailed format of the unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited consolidated & standalone financial results for the quarter ended June 30, 2023 alongwith review report of the Statutory Auditors is available under Investors section of our website at www.jubilantindustries.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

for Jubilant Industries Limited

Manu Ahuja CEO & Managing Director India Trade Promotion Organisation
(A Government of India Enterprise)
Pragati Bhawan, Pragati Maidan, New Delhi-110 001 (India)
TENDER NOTICE

Subject: Selection of the Concessionaire for India Pavilion at Expo City, Dubai Tender Ref. No.: ITPO/Dubai/2023/01 Dated: 1* August, 202 CPPP Tender ID: 2023_ITPO-764710_1

ITPO intends to appoint Concessionaire for Operation Services for India Pavilion at Expc City, Dubai. Please refer website www.indiatradefair.com and www.eprocure.gov.in for complete details including Criteria and documents to be furnished.

Last date for receiving queries/requests for clarifications 8th August, 2023

nor complete detaile including enteria and decamente to be furnic	niou.
Last date for receiving queries/requests for clarifications	8 th August, 2023
Pre-Bid Meeting	11 th August, 2023
ITPO response to queries/clarifications and start of Bid submissions	19 th August, 2023
PDD	12 th September, 2023
	(Col. Pushpam Kumar)
	OSD (Admn.)
	osditno@itno gov in



NTPC Limited is India's largest integrated energy company with installed capacity of 73,024 MW. Commensurate with our country's growth challenges, NTPC has embarked upon an ambitious plan to attain a total installed capacity of 130 GW by 2032. Interested eligible candidates should log on to our website careers.ntpc.co.in or visit careers section at www.ntpc.co.in for viewing detailed eligibility criteria, required qualification, required experience, remunerations, tenure of engagement, other terms &

conditions and for applying. Only online mode of application will be accepted. The online

application portal will remain open from 09.08.2023 to 23.08.2023. Any further addendum/corrigendum/updates will only be published on our website.

NTPC Limited (A Govt. of India Enterprise)

NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex 7, Institutional Area, Lothi Road, New Delhi - 110003 CIN: 140101DL1975G01007966





Data rich, visual reporting with Mint Plain Facts

Read only on **mint**

कृज्, गैस्

सता संग्राम

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की अपील की

वंशवाद की राजनीति भारत के विकास में बड़ी बाधाः प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंशवाद की राजनीति देश के विकास में बाधा है। विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब एक स्वर में भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और तुष्टिकरण जैसी बुराइयों से कह रहा है 'भारत छोड़ो'।

मोदी ने नौ अगस्त की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि यह तारीख महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के सबसे बडे आंदोलन की गवाह रही है. जिन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि इस नारे का इस्तेमाल अब ऐसे तत्वों को दूर करने के लिए किया जा सकता है जो विकसित भारत के निर्माण की राह में बाधा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत को एक विकसित देश . बनाने की राह में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जनता अब भ्रष्टाचार तथा तुष्टिकरण जैसी बुराइयों को भारत से निकालने की मांग कर



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूरजकुंड में आयोजित भाजपा के दो दिवसीय कार्यक्रम का उदघाटन किया। • प्रेट्र

स्वदेशी वस्तुओं को लेकर नई क्रांति आई: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भारत मंडप में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को लेकर देश में एक नई क्रांति आई है। उन्होंने लोगों से आने वाले त्योहारों पर इसे बढ़ावा देने का आग्रह किया। मोदी के मुताबिक देश में 'नव-मध्यम वर्ग' का उदय हो रहा है, जो कपड़ा कंपनियों को बड़ा अवसर प्रदान करता है। देश में खादी की बढ़ती लोकप्रियता पर मोदी ने कहा कि इसकी बिक्री अब बढकर

1.30 लाख करोड़ रुपये हो गई है जो 2014 से पहले करीब 25,000-30.000 करोड़ रुपये थी।

पीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि भारत के हथकरघा, खादी, कपडा क्षेत्र को विश्व गरु बनाया जाए। एक जिला, एक उत्पाद पहल के माध्यम से विभिन्न जिलों में बने अनूठे उत्पादों को बढावा मिलने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात के 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' की तरह पूरे देश में 'एकता मॉल' स्थापित किए जा रहे हैं।

'पिछली सरकार नहीं समझ पार्ड पंचायती राज का महत्व

चंडीगढ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फरीदाबाद के सुरजकुंड में आयोजित भाजपा के दो दिवसीय कार्यक्रम 'हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद' कार्यशाला का उदघाटन किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबत करने को कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। चार दशकों तक वह यह नहीं समझ पाए कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना जरूरी है।

मोदी ने कपड़ा व फैशन उद्योग से अपना दायरा बढ़ाने और भारत को दुनिया की तीन शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से योगदान देने का भी आह्वान किया

उन्होंने कहा कि आज देशभर के गांवों और कस्बों में लाखों लोग हथकरघा से जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर दलित, पिछड़े, पसमांदा और आदिवासी समाज से आते हैं। नौ वर्षों में केंद्र के प्रयासों ने इन्हें रोजगार मिलने के साथ इनकी आय भी बढी है।

मोदी जैसा कोई नेता नहीं: अजीत

पुणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के उपमख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि उन्हें आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसा कोई अन्य मजबत नेता नहीं दिखता। पुणे में पत्रकारों से बातचीत में अजीत पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार में शामिल होने के उनके फैसले के लिए कुछ लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अलग राय रख सकता है। अजीत पवार दो जुलाई को शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल हो गए थे।

नड्डा के खिलाफ एफआईआर रद्द

बेंगलुरु, एजेंसियां। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मई में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक भाषण में आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने के मामले में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और जांच को सोमवार को रद्द कर दिया।

7 मई को चुनाव प्रचार के दौरान नड्डा ने हरप्पनहल्ली शहर के आईबी सर्कल में चुनावी रैली में कथित तौर पर कहा कि अगर भाजपा चुनाव हार जाती है तो मतदाता केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाएंगे।

गहलोत ने फिर पद छोड़ने की बात कही

EFFECTIVE RELIEF

FROM CONSTIPATION

Ayurvedic Proprietary Medicine Safe for daily use

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को खद को प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा फकीर होने का दावा दिया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है। बिड़ला सभागार में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान जो भी फैसला करेगा. वह उन्हें मंजूर होगा।

विदेशी फंडिंग की जांच कर रही ईडी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवंतन निदेशालय न्यूजिक्लक पोर्टल में 86 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी फंडिंग की जांच कर रहा है। वह जल्द ही एंटी- मनी लॉन्डिंग कानून के तहत मामले में आरोप पत्र दाखिल करेगा। अधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद न्यूजिक्लक फिर से सुर्खियों में है। इसमें दावा किया गया है कि समाचार पोर्टल एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा था, जिसे अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम से धन प्राप्त हुआ था।

देश 📲 🛚

NATURAL TABLETS

पेट सफा तो हर रोग दफा

खड़गे ने एकजुटता का पाठ पढ़ाया

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मिल्लकार्जुन खड़गे ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने और चुनाव तैयारियों में जटने की नसीहत दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहल गांधी ने भी हिस्सा लिया।

आजाद का 'डीएनए' बदल गया : जयराम रमेश

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के 20 से अधिक नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इनमें अधिकतर गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से संबंध रखते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आजाद की पार्टी के कई नेताओं की कांग्रेस में वापसी के बाद गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आजाद का 'डीएनए

भाजपाशासन में कथित अनियमितता की जांचहोगी

बेंगलुरु । कर्नाटक सरकार ने आईएएस अधिकारियों की अध्यक्षता में चार समितियों का गठन किया है। यह समिति राज्य में 2019 से 2023 तक भाजपा शासन के दौरान बेंगलुरु महानगर नगर निगम में हुई कथित अनियमितताओं की जांच करेगी। शहरी विकास विभाग ने अपने आदेश में कहा कि लोगों ने व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में कई शिकायतें की थीं।

अभिषेक बनर्जी ने ईडी पर तंज कसा

नई दिल्ली। तणमल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को ट्विटर पर कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रैंकों पर अयोग्य और अक्षम लोगों को देखना वास्तव में निराशाजनक है। इनके पास सप्ताह में दो बार अपने राजनीतिक संरक्षकों की सेवा में मीडिया में मनगढ़त कहानियां प्रसारित करने की अद्वितीय प्रतिभा है।

(₹ लाखों में)

तेलंगाना में त्रिकोणीय संघर्ष के बन रहे आसार

नई दिल्ली। तेलंगाना में इस बार विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार है। सत्तारूढ़ बीआरएस के लिए कांग्रेस के साथ भाजपा भी कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। पिचले चुनाव भाजपा ने यहां पर

काफी काम किया है और कुछ अहम सफलताओं के साथ अपना वोट भी बढाया है। वहीं कांग्रेस को कई झटके लगे हैं। इन पांच सालों में एक बडा बदलाव सत्तारूढ दल के नाम में बदलाव का भी आया है और टीआरएस (तेंलगाना राष्ट्र समिति) अब बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) बन गई है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की मांग का नेतत्व करने के बाद राज्य के विभाजन के बाद अस्तित्व में आए तेलंगाना में बीआरएस का अभी तक एकतरफा राज चल रहा है। उसकी ताकत के सामने विरोधी बेहद कमजोर रहे हैं, लेकिन अब हालात वैसे नहीं है। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चार सीटें जीतकर अपनी जगह बनानी शरू की थी। बीते साल हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर भाजपा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान भी चलाया था। वर्ष 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की 119 सीटों में टीआरएस को 88, कांग्रेस को 19, एआईएमआईएम को सात, तेलुगुदेशम को दो, भाजपा को एक, फारवर्ड ब्लॉक को एक और निर्दलीय को एक सीट मिली थी।

खड्गे की चुनावी राज्यों में 13 से जनसभाएं नई दिल्ली. विशेष संवाददाता। पांच

दिया जा रहा है।

सर्वेक्षण से होगा उम्मीदवारों का चयन

संसद का मानसन सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खडगे

चुनावी राज्यों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। खड़गे 13 अगस्त को

छत्तीसगढ, 18 अगस्त को तेलंगाना, 22 को मध्य प्रदेश और 23 को

राजस्थान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ट नेता ने कहा

कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव कार्यक्रम को भी अंतिम रूप

राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वेक्षण करा रही है, ताकि बेहतर और जिताऊ उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। पार्टी इस बार इन चुनावों के लिए टिकट बंटवारे में नए और युवा चेहरों पर दांव लगाएगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, सितंबर के दूसरे सप्ताह में पार्टी सभी चनावी राज्यों में कम से कम

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में अलग-अलग टीम सर्वेक्षण कर रही हैं। हर राज्य में दो सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं। बेहतर उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। राजस्थान कांग्रेस

आधी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान

करने की तैयारी कर रही है।

अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सितंबर में सर्वेक्षण की पहली सची आने की उम्मीद है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सर्वेक्षण के आधार पर टिकट बंटवारा राजनीतिक तौर पर काफी फायदेमंद साबित हुआ है। टिकट दावेदारों की संख्या कम होने से प्रत्याशी घोषित होने के बाद नाराजगी

की संभावना भी कम है। हिमाचल और कर्नाटक में टिकट बंटवारे को लेकर पूर्व की तरह नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन के लिए एक सर्वेक्षण सुनील कानुगोलू की निगरानी में कराया जा रहा है। दोनों सर्वेक्षण में जिन सीटों पर एक प्रत्याशी का नाम आएगा, उम्मीदवारों की पहली सची में उस सीट के टिकट का ऐलान कर दिया जाएगा।

चौथेदिन गुम्बद और मीनारों को जांचा



वाराणसी, विशेष संवाददाता। ज्ञानवापी में चौथे दिन एएसआई सर्वे की एक टीम ढांचे के छत पर पहुंची। गुंबद व मीनारों की बनावट देखी। उसकी ऊंचाई, चौडाई, लम्बाई व सतह से गहराई भी जांची। गुम्बद के ऊपर चढ़ी पेंट व चूने की परतों को बारीकी से परखा और सैम्पलिंग की। फोटोग्राफी भी की। मीनारों को एक दूसरे से जोड़कर मापा गया। वहीं पश्चिमी दीवार के छोर से सटे गुम्बद

की स्थिति की भी मैपिंग की। ਪੁਲਿਦਸੀ ਫੀਰਾਂ ਪਾ ਦੀਐ ਫਿਜ भी **चली जांच:** एएसआई टीम ने लगातार चौथे दिन मस्जिद की पश्चिमी दीवार की जांच की। दीवार पर उभरी कलाकृतियों की दोबारा मैपिंग व गणना की। टीम हर उभरी आकृति का नक्शा भी बना रही थी। उत्तर व पश्चिम दिशा में मजार जैसी आकृति के आसपास की भी वीडियोग्राफी की। इसके साथ ही मिट्टी व आसपास के पत्थरों के सैम्पल लिये।

 गुम्बद के ऊपर चढ़ी पेंट व चूने की परतों को बारीकी से परखा मीनारों को एक दूसरे से जोड़कर मापा गया, फोटोग्राफी भी हुई

बैरिकेडिंग हटाने की अर्जी पर सनवाई आज

वाराणसी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंगलवार को ज्ञानवापी से जुड़े एक अन्य वाद में सुनवाई होगी। ज्योतिर्लिंग आदिविश्वेश्वर विराजमान की तरफ से दाखिल बड़ी पियरी निवासी अधिवक्ता अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी के वाद में ज्ञानवापी स्थित आराजी पर भगवान का मालिकाना हक घोषित करने, केंद्र व राज्य सरकार से भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग और ज्ञानवापी की बैरिकेडिंग हटाने की मांग की गई है। उधर दो चरणों में चला सर्वे शाम ५ बजे खत्म होने के बाद बाहर निकली हिन्द पक्ष की महिलाएं काफी उत्साहित दिखीं। उन्होंने कहा कि एएसआई पूरी वैज्ञानिक तरीके से हर तरफ जांच कर रही है। उनकी जांच व सर्वे से वादी व प्रतिवादी दोनों संतृष्ट हैं। महिलाओं ने 'बोल बम' और 'बम–बम बोल रहा काशी' के गीत गाते हुए बढ़ रही थीं।

चमकने लगा दक्षिणी तहखानाः हिन्दू पक्ष का कहना था कि सर्वे में क्या मिला, क्या नहीं ? यह केवल एएसआई के अधिकारी ही बता पाएंगे, लेकिन दक्षिणी तहखाने में तीसरे दिन भी जांच जारी है। तहखाने की बेहतर साफ-सफाई कर दी गई है। जिससे अब वह प्रकाश के बीच चमकने लगा। सर्वे टीम ने तहखाने की कोडिंग व नक्शा भी तैयार किया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व रविवार को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे के दौरान गुंबदों के नीचे मंदिर की शिखरनुमा आकृति दिखने की बात

चार हजार भर्तियों का फर्जी

विज्ञापन हुआ वायरल

सामने आई थी। चर्चा चली थी कि मंदिर के शिखर के ऊपर ही गुंबदों का निर्माण किया गया होगा। हालांकि इस संबंध में वादी पक्ष और उनके अधिवक्ता सीधे कुछ कहने से बचते रहे। वहीं, एसएसआई का सर्वे अब बारीकियों की ओर बढ़ चला है। सर्वे टीम ने सभी प्राप्त अवशेषों, प्रतीक चिह्नों की सूक्ष्म जांच की। कल सर्वे टीम की जांचे ज्यादा समय तक ढांचे के सभागार, तीनों गुंबदों व मीनार के आसपास टिकी रही। सीढ़ियों की मदद से गुंबद की आंतरिक दीवारों व सतहों

पर उभरी आकृतियों की मापी हुई थी।

सांसद कटेरिया की सजा का

आगरा. कार्यालय संवाददाता। टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा

जिला जज ने उनकी सजा को अपील के निस्तारण तक निलंबित रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उनकी संसद सदस्यता पर मंडरा

सोमवार को सांसद कठेरिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहुजा, देवेंद्र सिंह, विमु आहुजा एवं साजिद अहमद ने सत्र न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील की। सनवाई के बाद जिला जज विवेक संगल ने कठेरिया को बडी राहत प्रदान की। इस मामले में इटावा सांसद की याचिका पर

आदेश निलंबित

दोषी करार दिए गए इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा अगली सुनवाई तक निलंबित कर दी गई है। कोर्ट ने उन्हें दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद भाजपा सांसद ने जिला जज आगरा के न्यायालय में अपील की थी।

रहा खतरा भी टल गया है।

अगली सनवाई 11 सितंबर को होगी।

शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित, नोटिस चस्पा

एनएचएम

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के नाम पर कुछ जालसाजों ने फर्जीवाड़े का प्रयास किया है। एनएचएम में कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर (सीएचओ) सहित कई अन्य पदों पर 4 हजार भर्तियों का फर्जी विज्ञापन तैयार कर दिया।

इसे सोशल मीडिया साइटों पर वायरल किया गया है। वहीं इस वायरल विज्ञापन के संबंध में जब आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने एनएचएम की मिशन निदेशक पिंकी जोवेल से पूछा तो उन्होंने इसको पूरी तरह फर्जी बताया। इसे गंभीरता से लेते हुए एनएचएम की साइट पर भी फेक लिखकर अपलोड करते हुए लोगों को सावधान किया गया है।

वायरल विज्ञापन में एनएचएम यूपी में सीएचओ, डिस्ट्रिक्ट कॉर्डीनेटर, ब्लाक कॉर्डीनेटर. रूरल कॉर्डीनेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर 4 हजार भर्तियां दर्शायी गई हैं। संविदा पर दर्शाई गई इन भर्तियों में 18 हजार से 38 हजार तक मासिक वेतन बताया गया है। मगर जालसाज ने अंग्रेजी लिखने में कई अशुद्धियां कर दीं। वहीं आवेदन की साइट भी नहीं दर्शायी।

एक अगस्त की तिथि से जारी इस विज्ञापन को मिशन निदेशक ने पूर्णतः फर्जी बताते हुए लिखा है कि एनएचएम यूपी का इससे कोई संबंध नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि सभी आधिकारिक प्रतियोगिताएं, घोषणाएं व भर्ती संबंधित विवरण केवल एनएचएम की आधिकारिक वेवसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ही पोस्ट किए जाते हैं।

कारेवार्ड

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। 50 हजार की इनामी शाइस्ता के लिए सोमवार को पुलिस टीमों ने

अतीक के गढ़ रहे चिकया मोहल्ले में पहुंची कई थानों की फोर्स ने शाइस्ता की फरारी की ड्गड्गी पिटवाई। ढोल-ताशा के साथ पुलिस ने फरारी की उद्घोषणा कर अतीक के चकिया स्थित जमींदोज घर पर धारा 82 का नोटिस चस्पा कर दिया। शाइस्ता के अलावा पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों समेत छह लोगों के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई की है।

हालांकि सोमवार को मुनादी महज

💻 पुलिस टीमों ने सोमवार को मुनादी कराई

उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता भी आरोपित है जावेद पकड़ा गया

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। अतीक

अहमद गैंग के सक्रिय सदस्य 50 हजार के इनामी मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गंजिया को प्रयागराज एसटीएफ ने अजमेर में गिरफ्तार कर लिया है। रंगदारी के मुकदमे में वह एक साल से फरार था। उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है। एसटीएफ प्रभारी नवेन्द्र सिंह ने बताया कि नैनी के पप्प गंजिया के खिलाफ गैंगस्टर समेत 41 मकदमे दर्ज हैं।

शाइस्ता के घर ही कराई गई। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपित है।



जबिलैंट इंडस्टीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः भारतियाग्राम, गजरौला, जिला अमरोहा – 244 223, उत्तर प्रदेश | सीआईएनः L24100UP2007PLC032909 वेबसाइटः www.jubilantindustries.com | ई—मेलः investorsjil@jubl.com | फोनः +91-5924-267437

30 जून 2023 को समाप्त तिमाही हेतू समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

					(र लाखा म)
क्रम		30 जून 2023	31 मार्च 2023	30 जून 2022	31 मार्च 2023
क्रम सं.	विवरण	को समाप्त तिमाही			को समाप्त वर्ष
Χ1.		(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	संचालनों से कुल आय	34,874	34,337	35,503	147,292
2.	जारी संचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर एवं विशिष्ट मदों से पूर्व)	2715	1248	2769	7220
3.	जारी संचालनों से अवधि हेतु कर पूर्व शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट मदों के पश्चात्)	2715	1248	2769	7220
4.	जारी संचालनों से अवधि हेतु कर एवं विशिष्ट मदों के पश्चात् शुद्ध लाम/(हानि)	2086	974	2170	5279
5.	बंद संचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि)	(32)	904	33	935
6.	जारी संचालनों एवं बंद संचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि)	2054	1878	2203	6214
7.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल कर के)	2079	1892	2198	6186
8.	इक्विटी शेयर पूँजी	1,507	1,507	1,507	1,507
9.	पुनर्मूल्यांकन संचित के अतिरिक्त संचित				18,829
10.	जारी संचालनों हेतु प्रति शेयर आय ₹ 10 प्रत्येक				
	(क) मूलभूत (₹)	13.84	6.47	14.43	35.06
	(ख) मिश्रित (₹)	13.71	6.41	14.29	34.72
	बंद संचालनों हेतु प्रति शेयर आय ₹ 10 प्रत्येक				
	(क) मूलभूत (₹)	(0.21)	5.99	0.22	6.20
	(ख) मिश्रित (₹)	(0.21)	5.94	0.22	6.14
	जारी संचालनों एवं बंद संचालनों हेतु प्रति शेयर आय ₹ 10 प्रत्येक				
	(क) मूलभूत (₹)	13.63	12.46	14.65	41.26
	(ख) मिश्रित (₹)	13.50	12.35	14.51	40.86

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 7 अगस्त 2023

1. एकल वित्तीय परिणाम हमारी वेबसाइट www.jubilantindustries.com पर निवेशक अनुभाग के अंतर्गत एवं www.nseindia.com तथा www.bseindia.com के कॉर्पोरेट अनुभाग में वित्तीय परिणाम के अंतर्गत उपलब्ध हैं। कम्पनी की प्रमुख एकल वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

					(ર ભાલા મ)
	विवरण	30 जून 2023	31 मार्च 2023	30 जून 2022	31 मार्च 2023
क्रम सं.		7	को समाप्त वर्ष		
VI.		(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	संचालनों से कुल आय	-	-	-	-
2.	जारी संचालनों से अवधि हेतु कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि)	-	-	-	-
3.	जारी संचालनों से अवधि हेतु कर पश्चात् शुद्ध लाम/(हानि)	-	-	-	-
4.	बंद संचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि)	(32)	904	33	935
5.	जारी संचालनों एवं बंद संचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाम / (हानि)	(32)	904	33	935

- 2. उपरोक्त अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम, कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के विषय-स्वरुप थे, अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षित किए गए एवं 7 अगस्त, 2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एवं अभिलिखित किए गए।
- 3. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल किए गए 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही हेतु अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही हेतु अनअंकेक्षित समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप, वैधानिक अंकेक्षकों की समीक्षा रिपोर्ट सहित, हमारी वेबसाइट www.jubilantindustries.com पर निवेशक अनुभाग तथा www.nseindia.com एवं www.bseindia.com के कॉर्पोरेट अनुभाग में वित्तीय परिणाम के अन्तर्गत उपलब्ध है।

कृते जुबिलैंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

मनु आहूजा

सीईओ एवं प्रबन्ध निदेशक